

श्री नितेश रंजन ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक का पदभार संभाला



मुंबई, 10 मार्च, 2021: श्री नितेश रंजन ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार संभाला है. इस पद पर उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गयी है.

श्री रंजन सन 2008 से बैंक से जुड़े हुए हैं. आप मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और संपूर्ण डिजिटलीकरण के रणनीतिक एजेंडा सहित बैंक के विजन तथा लक्ष्यों को दिशा प्रदान करने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे पहले, आप ट्रेजरी परिचालन के प्रमुख रहे हैं. आपने बैंक में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी, तुलन-पत्र प्रबंधन समूह के प्रमुख, मुख्य अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र प्रमुख जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है. आपने अपने करियर की शुरुआत भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की और उसके बाद आपने आंध्रा बैंक में कार्य किया.

44 वर्षीय श्री नितेश रंजन अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं. आपने आईबीए एवं एगोन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श पर बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा विकसित आईआईएम बंगलूरु से नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी पूर्ण किया है. आपने टीच इंडिया पहल के तहत वंचित वर्ग के युवाओं के लिए 100 दिनों का 'स्पोकेन इंग्लिश प्रोग्राम' संचालित किया.

Xxxxxxx